



1-मारपीट, गाली गलौज कर सामूहिक दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने का वांछित आरोपी गिरफ्तार, थाना कांठ-

अवगत कराना है कि दिनांक 11-08-2022 को वादिनी निवासिनी थाना कांठ क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्त द्वारा घर में घुसकर मारपीट व गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देना व दुष्कर्म करने का प्रयास करने के संबंध में थाना कांठ पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना कांठ पर मु0अ0सं0-308/2022 धारा 452, 323, 504, 506, 376, 511 भादवि पंजीकृत किया गया। उक्त के क्रम में आज दिनांक 06-01-2023 को म0नि0 श्रीमती शर्मिला शर्मा व निरीक्षक श्री भूषण सिंह अपराध शाखा द्वारा मय हमराही पुलिस बल वांछित आरोपी 1. उस्मान पुत्र शौकीन निवासी ग्राम मघपुरी थाना कांठ जनपद मुरादाबाद व 2. इस्लाम पुत्र अबरार निवासी मलगदा थाना मझोला जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। उक्त मुकदमे साक्ष्य/बयानों के आधार धारा 511, 376 का विलोपन व 376 डी की वृद्धि की गयी।

2-अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 गिरफ्तार, थाना मैनाठेर:-

अवगत कराना है कि आज दिनांक 07-01-2023 को उ0नि0 श्री वेदपाल थाना मैनाठेर द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त गुलनबाज उर्फ गुल्लू पुत्र याकूब कुरैशी निवासी ग्राम यूसुफपुर नगलिया थाना पाकबड़ा, मुरादाबाद को एक तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना मैनाठेर पर मु0अ0सं0-07/2023 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

3-शांति भंग करने मे 07 गिरफ्तार, थाना मझोला-

अवगत कराना है कि आज दिनांक 07-01-2023 को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु थाना मझोला पुलिस द्वारा 07 अभियुक्त गण 1. भूरा उर्फ हसन, 2. गौरव, 3. नदीम उर्फ बशीरुद्दीन, 4. प्रमोद कुमार, 5. मोहम्मद शादाब, 6. रिकू सागर, व 7. हरिकिशन निवासीगण मझोला, मुरादाबाद को 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया।